

राजभाषा विभाग की मई, 2022 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 700 अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा स्टाल लगाकर प्रकाशित सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। इस आयोजन से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को स्मृति आधारित 'कंठस्थ' सॉफ्टवेर के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया।
- (ii) राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन तैयार कर मुद्रित कराया गया तथा इसका विमोचन माननीय गृह राज्य मंत्री जी के करकमलों द्वारा उक्त सम्मेलन में किया गया। इसकी प्रतियाँ सभी हिन्दी अधिकारियों को वितरित की गयी।
- (iii) राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में 29 भौतिक बैठकें, 36 ई-बैठकें, 38 भौतिक निरीक्षण, 53 ई-निरीक्षण तथा 60 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।
- (iv) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना / उप संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 74 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- (v) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 1,983 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य तथा 04 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 92 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- (vi) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 121 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- (vii) विभाग द्वारा 44 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (viii) केंद्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के संबन्धित लेखकों हेतु 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं।
- (ix) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिकाओं हेतु 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं।
- (x) वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 की मुद्रित प्रतियां केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों में भेजी गईं।
- (xi) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के 5 संयुक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वर्ष 2016 और 2017 के 30 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को स्थायी किया गया।
